

प्रेस नोट दि० 03.09.2021

थाना बिथरी चैनपुर बरेली

थाना बिथरी चैनपुर #bareillypolice# द्वारा वीसलपुर रोड पर मोबाइल छीनने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 26.08.2021 समय रात्रि लगभग 08 बजे श्री मनोज श्रीवास्तव पुत्र रामचन्द्र नि० ग्राम सैदूपुर कुर्मियान जेल रोड थाना बिथरी चैनपुर जिला बरेली से बीसलपुर हाइवे पर अज्ञात मोटर साइकिल सवार द्वारा मोबाइल छीनकर भागने की घटना के संबंध में मु०अ०सं० 381/21 धारा 392 भा०द०वि० पंजीकृत किया गया। उक्त घटना के सफल निस्तारण हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना में संलिप्त अभियुक्त गण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर बरेली महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान एएसपी/क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय श्री साद मियां खान जनपद बरेली महोदय के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार त्यागी के नेतृत्व थाना बिथरी चैनपुर पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण कर प्रकाश में आये अभियुक्त गण 1.चन्द्रभान पुत्र अयोध्या प्रसाद, 2.धर्मेन्द्र पुत्र रामेश्वर दयाल नि० गण ग्राम टाह ताजपुर थाना बिथरी चैनपुर जिला बरेली को उक्त घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल एवं लूटे गये मोबाइल व एक अदद तमंचा मय 01 अदद कारतूस एवं एक अदद चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया।

दिनांक घटना, समय व घटना स्थल -

03.09.2021 समय 08.48 बजे, घटना स्थल – नहर पुलिया के पास बहद ग्राम कुआडांडा

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम पता -

- 1.चन्द्रभान पुत्र अयोध्या प्रसाद,
- 2.धर्मेन्द्र पुत्र रामेश्वर दयाल नि० गण ग्राम टाह ताजपुर थाना बिथरी चैनपुर जिला बरेली

बरामदगी का विवरण -

- 1.लूटा गया मोबाइल रियलमी कम्पनी स्मार्टफोन
- 2.घटना में प्रयुक्त मो०सा० नं० UP25DE4202 हीरो स्पलेण्डर
- 3.एक अदद तमंचा 12 बोर, एक अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर, एक अदद चाकू नाजायज

पंजीकृत अभियोग -

- 1.मु०अ०सं० 383/21 धारा 3/25 ए एक्ट थाना बिथरी चैनपुर बरेली
- 2.मु०अ०सं० 384/21 धारा 3/25 ए एक्ट थाना बिथरी चैनपुर बरेली

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली टीम -

- 1.उ०नि० दीपक कुमार थाना बिथरी चैनपुर बरेली
- 2.का० 2042 अरविन्द कुमार
- 3.का० 2936 आशुतोष